



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

पत्रांक : १२१ / रा.नि.आ.-१/१७३ (II)/२०१३

दिनांक ... १६-११-२०१३

::कार्यालय-ज्ञापः

सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्थानुसार आयोग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-२६०२/रा०नि०आ०-१/१७३/२००१ दिनांक १८.११.२०१३ को अवकमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड मुख्यालय में श्री पी०के० सिंह, सहायक आयुक्त को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या १२१ (१)/रा०नि०आ०-१/१७३/२००१ तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ:-

१. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
२. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
३. अपर सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
४. अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
५. अपर सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
६. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
७. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
८. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
९. संबंधित अधिकारी।
१०. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
११. संबंधित पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०डी०पाण्डेय)  
उप सचिव।